



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938

No. 108]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

का.आ. 119(अ).—जबकि, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना) नियमावली, 2003 (इसके पश्चात नियमावली के रूप में संदर्भित) बनाई जोकि नियम 4 ए के उप-नियम (3) के अंतर्गत यह प्रावधान करती है कि महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण गणना के समय और अवधि को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगा;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने असम राज्य में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 अद्यतन करने का निर्णय लिया है ;

और जबकि, महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3591(अ) के माध्यम से अधिसूचित किया है कि असम राज्य के संबंध में गणना उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होगी और तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए;

और जबकि, असम राज्य में उक्त गणना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकी;

और जबकि, असम सरकार ने असम राज्य में गणना पूरी करने के लिए और समय के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उक्त नियमावली की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सत्यापन प्रक्रिया चल रही है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने असम सरकार को राज्य में उक्त गणना 31 मार्च, 2017 तक पूरी कर लेने की अनुमति देना जनहित में आवश्यक और उचित माना है।

इसलिए नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, के नियम 4ए के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसरण में और दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 की उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 3591(अ) के अधिक्रमण में महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करते हैं कि असम राज्य के संबंध में गणना 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी।

[फा. सं. 9/5/2009-सीडीआर (एनपीआर)-भाग-V]

शैलेश, नागरिक पंजीकरण के महारजिस्ट्रार

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(OFFICE OF REGISTRAR GENERAL, INDIA)**

**ORDER**

New Delhi, the 12th January, 2016

**S.O. 119(E).**—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government framed the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 (hereafter referred to as the said rules), which provides under sub-rule (3) of rule 4A that the Registrar General of Citizens Registration shall notify the period and duration of the enumeration in the Official Gazette;

AND WHEREAS, the Central Government decided to update the National Register of Citizens, 1951 in the state of Assam;

AND WHEREAS, the Registrar General of Citizens Registrations has, vide notification number S.O. 3591(E), dated the 6th December, 2013 notified that the enumeration in respect of the State of Assam shall take place from the date of publication of that notification and be completed within a period of three years;

AND WHEREAS, the said enumeration in the State of Assam could not be completed within the period specified in the said notification;

AND WHEREAS, the Government of the State of Assam has requested more time for completion of enumeration in the State of Assam as the verification process specified in the Schedule to the said rules is in progress;

AND WHEREAS, the Central Government has considered it necessary and expedient in the public interest to allow the State Government of Assam to complete the said enumeration in the State by the 31<sup>st</sup> day of March, 2017.

Now, THEREFORE, pursuant to the provisions of the sub-rule (3) of rule 4A of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity cards) Rules, 2003 and in supersession of the said notification number S.O. 3591(E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Registrar General of Citizens Registration hereby notifies that the enumeration in respect of the State of Assam shall be completed within the period ending on the 31<sup>st</sup> day of March, 2017.

[F. No. 9/5/2009-CDR (NPR)-Vol. V]

SAILESH, Registrar General of Citizen Registration